

FEDDERS HOLDING LIMITED

(Formerly known as IM+ Capitals Limited)
CIN: L74140UP1991PLC201030

04th September, 2024

To,
The Secretary,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort Mumbai-400001

Ref: FEDDERS HOLDING LIMITED (Scrip Code: 511628)

Sub: Newspaper cutting- Intimation to shareholders w.r.t. 33rd Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 read with Schedule III Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, we hereby enclose the copies of the Notice issued for attention of the Shareholders in respect of information regarding 33rd Annual General Meeting scheduled to be held on Saturday, 28th September, 2024 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, we are forwarding herewith copies of newspaper cuttings of the above notice as published in the following newspapers:.

Name	Date of Publishing	
Financial Express (English Newspaper)	04.09.2024	
Jansatta (Hindi Newspaper)	04.09.2024	

Signatory

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours Faithfully,

For and on behalf of Fedders Holding Limited

SAKSHI GOEL
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Page office C 15 PDC Dei Neger Chariebed 201001 Utter Predesh

FINANCIAL EXPRESS

STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED

CIN: L74899DL1987PLC027057

Regd. Off: G-17, Krishna Apra, Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi 110034 E-mail: info@stancap.co.in

NOTICE OF CONVENING ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of Standard Capital Markets Limited ("the Company") will be held on Monday, September 30, 2024 at 12.30 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) to transact the business as set out in the Notice

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM, will be sent only by electronic mode to the members whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.stancap.co.in and on the website of Stock Exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com.

Manner of registering / updating email addresses by the Members:

- For shares held in physical form Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, Skyline Financial Services Private Limited at info@skylinerta.com
- · For shares held in demat form Please contact your Depository Participant (DP)

Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. The manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM, by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses, has been provided in detail in the Notice of the AGM.

For Standard Capital Markets Limited

Date: 03/09/2024 Place: New Delhi

Vineeta Gautam Company Secretary

NEW LIGHT APPARELS LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC064005

Reg. Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi, Delhi, India - 110027 Email: newlight.apparels@gmail.com, Tel.: 011-45613885/ 9810192160

. Website: www.newlightapparels.com Addendum to the Notice of 29th Annual General Meeting

This is with reference to the Notice dated 28th August, 2024 sent to the Shareholders for convening the 29th Annual General Meeting (AGM) of the company on Monday, 23rd September, 2024 at 12:30 P. M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM). The AGM Notice has been already mailed and dispatched to the shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the companies Act, 2013 read with rules made thereunder the Act. Subsequent to the issuance of the AGM Notice, the Board of directors in their meeting dated 03rd September, 2024 considered and approved, the stock split (sub-division of equity shares) of Company's 01 (One) equity share of face value of Rs. 10/- each into 10 (Ten) equity shares of face value of Rs. 01/- each and consequent approval of alteration

subject to approval of shareholders. Accordingly, the company has amended the notice of its 29th AGM by adding and altering additional agendas as special business in Item No. 6, 9 and 10 in the Addendum to Notice to 29th AGM, the said addendum to notice is also available on the company website www. newlightapparels.com and website of BSE Limited www.bseindia. com. This addendum to notice shall form an integral part of notice dated 28th August, 2024 circulated to the shareholders of the company.

in the Capital Clause of Memorandum of Association of the Company

The company shall take necessary action for updating the aforesaid Addendum of the AGM Notice on the website of NSDL and BSE Limited for their information and necessary action. Members and other stakeholders are requested to read the AGM Notice along with the Addendum

All the processes, notes and instructions relating to e-voting set out for and applicable to the ensuing 29th AGM shall mutatis-mutandis apply to the e-voting for the Resolutions proposed in this addendum to the Notice of 29th AGM, furthermore, the scrutinizers appointed for the ensuing AGM will act as scrutinizers for the Resolution proposed in this Addendum to the Notice of AGM.

This notice is also available on the Company website www. newlightapparels.com andwebsite of BSE Limited www.bseindia.com.



Branch Address: Branch Chittaranjan Park - New Delhi, Door No.B-103, Ground Floor, Chittaranian Park P.O, South Delhi, Delhi Pin 110019. Tel: 011-41064960, 1800 425 1809 Branch Mail ID: br0358@sib.co.in


Gold Auction for Mortgages at Bank

Whereas, the authorized officer of The South Indian Bank Ltd., issued Sale notice(s) calling upon the borrower to clear the dues in gold loan availed by him. The borrower had failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned will conduct online auction of the gold ornaments strictly on "As is What is Basis" & "Whatever there is Basis" & "Without recourse Basis". The auction will be conducted online through https://egold.auctiontiger.net on 15.09.2024 from 12:00 pm to 03:00pm for the borrower MR SYED MOINUL HASAN account number 0358653000000581

Please contact Auction Tiger on for more information.

Sd/- Manager

The South Indian Bank Ltd.



FEDDERS HOLDING LIMITED

HOLDING LTD

(Formerly Known as IM+ Capitals Limited
(CIN: L74140UP1991PLC201030)

Registered Office: C-15, ROC, Raj Nagar, Ghazabad, Uttar Prafesh - 201001.

Tel. No.: 9810266747; E-mail: imcapitals.compliances@gmail.com

Notice of 33rd Annual General Meeting of Fedders Holding Limited (Formerly known as IM+ Capitals Limited)

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of Fedders Holding Limited will be held on Saturday, 28th September, 2024 at 03:00 p.m. (IST), through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of the AGM

The Company has sent the Notice of 33rd AGM only through electronic mode on Tuesday, September 03, 2024 to Members whose email addresses are registered with the Companyl Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/Depositories in accordance with the General Circular 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2021 dated May 05, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 (collectively referred to as "MCA Circulars"). The Notice of the 33rd AGM along with the Annual Report of the Company is available on the Company's website-www.imcapitals.com and on the website of the stock exchange i.e. BSE Limited (www.bseindia.com).

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The remote e-voting period commences on Wednesday, September 25, 2024 (09:00 a.m. IST) and ends on Friday, September 27, 2024 (05:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. Remote e-voting module shall be disabled by Link Intime (India) Private Limited at 5:00 p.m. on Friday, September 27, 2024 and Members will not be allowed to vote through remote evoting thereafter. The remote e-voting module during the AGM shall be disabled by Link Intime (India) Private Limited for voting, 15 minutes after the conclusion of the

The Members can opt for only one mode of remote e-voting i.e. either prior to the AGM or during the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

The Board of Directors has appointed Ms. Chetna Bhola, Company Secretaries in Practice having Membership No. A41283 and C.P. No. 15802, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process, in a fair and transparent manner.

In case shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-4918 6000

By order of the Board For Fedders Holding Limited

Vishal Singhal Whole Time Director DIN: 03518795

Date: 3rd Sentember, 2024 Place: Ghaziabad

JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74999DL1982PLC014411

Regd. Office: 208, Magnum House-II, Karampura Community Centre, New Delhi 110015 Ph: 011-45090162, E-Mail: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, Web: www.itel.co.in

एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(पूर्व में एमबीएल इफ़ास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सीआईएन: L27109DL1995PLC338407

कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः बानी कॉर्पोरेट वन टावर, सुइट नंबर 308, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 5, जिला वाणिज्यिक केंद्र, जसोला, नई दिल्ली – 110 025 टेलीफोन: +91-011 44792982

cs@mblinfra.com, वेबसाइट: www.mblinfra.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) की उनतीसव वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 3:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि नोटिस में बताए गए अनुसार कारोबार किया जा सके, जिसे 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरीधीलंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.mblinfra.com, www.nseindia.com और एनडीएलएस की वेबसाइट www.bseindia.com और

यानी www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी /ओएदीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एजीएम में विचार किए जाने वाले प्रस्तावों पर एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग

प्रदान करने के लिए एनएसडीएल के साथ व्यवस्था की है। सदस्य, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गर लामकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख यानी 23 सितंबर, 2024 को दर्ज हैं. कंवल वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा का लाम उठाने के पात्र होंगे। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार एजीएम की सूचना को केंवल सूचना के उद्देश्य के लिए मानना चाहिए। भौतिक मोड में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों या जिन्होंने कंपनी /डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। एजीएम की सूचन भेजे जाने के बाद लेकिन 23 सितंबर, 2024 को या उससे पहले कंपनी के सदस्य बनन वाले व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध करते evoting @nsdl.co.in को

delhi@linkintime.co.in पर लिख सकते हैं। हालांकि, रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत सदस्य इस उद्देश्य के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त होगी, उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एक बार जब सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बार फिर बैठक में अपना वोट डालने का अधिकार

एजीएम से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य श्री अनुमध माहेश्वरी, कंपन्नी सचिव, एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बानी कॉर्पोरेट वन, सुइट नंब 308. तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 5. वाणिज्यिक केंद्र, जसोला, नई दिल्ली – 110025 को लिख सकते हैं या 011-44792982 पर संपर्क कर सकते हैं या cs@mblinfra.com पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा ई-वोटिंग संबंधी प्रश्नों के लिए, शेयरधारक https://www.evoting.nsdl.com के 'डाउनलोड अनुमाग के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं या 022- 48867000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल और/या श्री अमित विशाल, चप-चपाध्यक्ष, एनएसडीएल को e&voting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज सकते हैं। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से 24 सितंबर 2024 से 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

बोर्ड के आदेश से एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए हस्ता /

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 03.09.2024 अनुमव माहेश्वरी कंपनी सचिव



बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम) पंजीकृत कार्यालयः 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 सीआईएन : L15492WB1924GOI004835

दूरभाष: 033 22225612 ई-मेल: bhavsar.k@balmerlawrie.com वेबसाइटः www.balmerlawrie.com

107वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) ग्रम्मा तथा ई-वोटिंग जानकारी



फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड

(पूर्व में आईएम+ केपिटल्स लिमिटेड के नाम से जीनी जीता ((सीआईएन: L74140UP1991PLC201030)

फेर्ड्स होल्डिंग लिमिटेड की 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना (पूर्व में आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

एतइवारा सूचना दी जाती है कि फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड की 33वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" र्पाच्याच सुवना या जाता रूपक कबत bucer inince का उउवा वावक आम बठक (एजाएम) किसी सार्वजनिक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रॉसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ऑएवीएम") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट ्वासा // अन्य आख्या विजुलत ताला। (जारुवार /) व्यवसार्यों को लेन-देन करने के लिए शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को अपराह 03:00 बजे (आईएसटी), आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने 33वीं एजीएम की सूचना कंवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मंगलवार, 03 सितंबर, 2024 को उन सदस्यों को भेजी है जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, जो कि सामान्य परिपन्न 14 / 2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 05 मई, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25,09.2023 (सामूहिक रूप से कंपनी की वार्षिक जार साना य नार्पत्र राज्या *187 202*3 स्वान द्वाराज्य द्वाराज्य सामा है । रिपोर्ट के साथ 33वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>www.imcapitals.com</u> और स्टॉक

एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। सदस्यगण केवल वीसी / ओएबीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल तथा उपस्थित हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के

गणना की उद्देश्य के लिए की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, 25 सितंबर 2024 (09:00 पूर्वाहन IST) से शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 (अपराहन 05:00 IST) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, सदस्य इलक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं । रिमोट ई-वोटिंग मापान्क को शुक्रवार, 27 सितंबर श्रुपप्रभागक लग स जवना पाट बाल सकत है । १रनाट इन्याटन नावाक का सुक्रवार है। स्तावर 12024 अपराहन 5:00 बजे लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएंग और उसके बाद सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग मापान्क बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए लिंक इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के केवल एक तरीके का विकल्प चुन सकते हैं अर्थात या तो एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट जाला है, वे भी वीसी ∕ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल ∕ भाग ले सकते हैं लेकिन पुनः वोट

डालने के हकदार नहीं होंगे। निदेशक मंडल ने सुश्री चेतना भोला, कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस, सदस्यता संख्या A41283 और C.P. सं. 15802, को रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए

संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। यदि शेयरधारक / सदस्य भौतिक रूप में प्रतिभृतियों को धारण करते हैं या संस्थागत शेयरधारकों के पाप राजरणारक / तपरच नातक राजन न आरामुलाचा का वारण करता है जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और इस्टाबोट ई-बोटिंग मेनुअल का संदर्ग, हेल्प संक्शन के अंतर्गत https://instavote.linkintime.co.in वेबसाइट पर ले सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं या दूरमाषः 022 -4918 6000 पर संपर्क करे सकते है।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड विशाल सिंघल पूर्ण कालिक निदेशक डीआईएनः 03518795

तिथिः 03 सितम्बर 2024 स्थानः गाजियाबाद

इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड

विशामिक कार्याक्र : 154, राजपुर शे.क. स्वाजन, देखाबुन, उत्तराखण्ड-248001 ६-तेल : rj.headoffice@gmail.com, वेखवाहर : www.indogulfind.com दुरुगण: 0135-2114568 / 2735249, कैक्स : 0135-2733960 विशामिक प्रधान संख्या (श्रीआईएल) : 1.74900DL1981PL.C011425

वार्षिक साचारण सभा, ई-वोटिंग तथा बही समापन तिथि की सूचना

प्राविक साधारण संग्रभ है चीटिंग तथा बढ़ी समापन तिवि की सूचना
प्राविक साधारण संग्रम, ई चीटिंग तथा बढ़ी समापन तिवि की सूचना
प्राविक साधारण संग्रम, ई चीटिंग तथा बढ़ी समापन तिवि की सूचना
प्राविक साधारण संग्रम, के विदेश के साधारण संग्रम (प्राविण) को आयोजन संग्रम 30 सिसंबर 2024 को
समापन परिपत्र सं, 14/2000 विनामित व अपेत 2020, सामापन परिपत्र सं, 27/2020 दिनामित 13 अदिव 2020, सामापन परिपत्र सं, 20/2020 दिनामित 15 जून 2020, सामापन परिपत्र सं, 27/2020 दिनामित 15 जून 2020, सामापन परिपत्र सं, 20/2020 दिनामित 15 जून 2020, सामापन परिपत्र सं, 26/2020 दिनामित 15 जून 2020, सामापन परिपत्र सं, 26/2020 दिनामित 15 पित्र 2020, सामापन परिपत्र सं, 26/2020 दिनामित 15 पित्र 2020, सामापन परिपत्र सं, 26/2020 दिनामित 15 पित्र 2022 (सामुप्ति कर्म ने पुरस्तिए परिपत्र सं, 30/2020 दिनामित 15 पित्र 2020, सामापन परिपत्र सं, 26/2020 दिनामित 5 पित्र 2022 (सामुप्तिक कर्म ने पुरस्तिए परिपत्र) तथा भारतीय
वानस्ति 2021 प्रमा सामापन परिपत्र सं, 26/2020 दिनामित 5 पित्र 2022 (सामुप्तिक कर्म ने पुरस्तिए परिपत्र) तथा भारतीय
प्रतिक्रित 12 मई 2020, परिपत्र सं सीवी (प्रावित्र) सीचार्यका (प्रीत्र) सीचार्यका (परिप्त) सीचार्यका (परिपत्र) सामाप्त परिपत्र सं, सीवी (प्रवित्र) सीचार्यका (परिपत्र) सीचार्यका सीचार्यका (परिपत्र) सीचार्यका सीचार परिपत्र) सीचार्यका सीचार (परिपत्र) सीचार्यका सीचार सीचार (परिपत्र) सीचार्यका सीचार परिपत्र) सीचार्यका सीचार सीचार्यका सीचार सीचार (परिपत्र) सीचार्यका सीचार परिपत्र) सीचार्यका सीचार सीचार्यका (परिपत्र) सीचार्यका सीचार सीचार सीचार सीचार (परिपत्र) सीचार्यका सीचार सीचा

2008.2024 होगी।
[स्मिन्ट है-सिटिंग मंदगुल 29.09.2024 को सार्व 500 बजे के उपरांत निकित्य कर दिया जायेगा।
[स्मिन्ट है-सिटिंग मंदगुल 29.09.2024 को सार्व 500 बजे के उपरांत निकित्य कर दिया जायेगा।
[स्मिन्ट है-सिटिंग मंदगुल 29.09.2024 को अनुसार औरों का धारण करता है, यह www.evolingindia.com, पर एक अंत कट-और हिंगीय आर्वात 25.09.2024 के अनुसार औरों का धारण करता है, यह www.evolingindia.com, पर एक अंत कट-और हिंगीय आर्वात 25.09.2024 के अनुसार औरों का धारण करता है, यह अपरांत और जाये निवेदण में जाये कोई शांतर कर सकता है। इस्तांकि, यदि गांतर कर सकता है। इस्तांकि, यदि गांतर कोई शांतर कर सकता है। से ही तीजीस्तरल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वोट डालने के लिए विद्यानन वर्तमान प्रवीका आईबी और पासवर्व

स हा ता शर्भिक कर सकता है। जा उपनीप कर सकता है। सदस्यगण ध्यान दें कि-क) रिमोट ई-बोटिंग मींड्यूल को सीडीएसएल हारा 28,09,2024 को साथ 05,00 बजी मामास को बाद निक्किय कर दिया जावेगा और यदि सदस्य हाथ एक बार किसी मस्ताय पर बोट डाल दिया जाता है तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. को बोटिंग की सुनिया एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करायी जावेग को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. को बोटिंग की सुनिया एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करायी